

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022 — ज्येष्ठ 13, शक 1944

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2022

## अधिसूचना

क्रमांक -150A/स्था. /2022/2004.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची -दो के सरल क्रमांक 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“3.	सहायक प्रोग्रामर	2	100%	-”	
-----	------------------	---	------	----	--

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(3) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)”

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

- “(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)”

हस्ता./-

(भुवनेश यादव)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं

पदेन सचिव, छ.ग. शासन

विधि एवं विधायी (निर्वा.)

कार्य

Raipur, the 3rd June 2022

#### NOTIFICATION

No. 150A/स्था./2022/2004.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Election (Non-Gazetted) Class-III Service Recruitment Rules, 2011 namely:-

#### AMENDMENT

In the said rules,-

- for serial number 3 of Schedule-II the following shall be substituted, namely:-

“3.	Assistant Programmer	2	100%	--”	
-----	----------------------	---	------	-----	--

- For entry (3) of column (5) of serial number 1 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

“(3) Certificate of Hindi and English typing 5000 (key) Depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”

- For entry (2) of column (5) of serial number 7 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

“(2) One year diploma/Certificate in data entry operator/programming from any recognized institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute of Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”

Sd/-

(Bhuvanesh Yadav)

Chief Electoral Officer &

Ex-Officio Secretary

Law and Legislative Affairs

(Election)